

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2011— आश्विन 8, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं